

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज, कॅनेडा में पालतू जानवरों के लिए Home To Home™ सर्विस देने वाली पहली सर्विस है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (18 जनवरी, 2021) – ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज (Brampton Animal Services), कॅनेडा में पालतू जानवरों के लिए Home To Home™ (होम टू होम™) सर्विस देने वाली पहली सर्विस है। यह एक इंटरएक्टिव सर्विस है, जो पालतू जानवरों को शेल्टर में छोड़े बिना, उनके लिए नए और प्यार करने वाले घर ढूंढने हेतु, उनके मालिकों की मदद करती है, जो अब उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते।

Home To Home™ के द्वारा, पालतू जानवर अपने मौजूदा घर से अपने नए घर में जाते हैं। मौजूदा पेट मालिक और नए पेट मालिक, जानवरों के बारे में सीधी जानकारी लेने और अपने पालतू जानवरों के ट्रांसफर का प्रबंध करने के लिए, इस प्रोग्राम के अंदर सीधे बातचीत कर सकते हैं।

री-होमिंग वेबसाइट, ब्रैम्पटन के उन पेट मालिकों की मदद करेगी, जिन्हें कुत्ते, बिल्लियों और अन्य जानवरों सहित, अपने पालतू जानवरों के लिए नया घर ढूंढने की जरूरत है। मौजूदा पेट मालिक, ऑनलाइन छोटा-सा फार्म भरते हैं और री-होमिंग के लिए, पालतू जानवर को सब्मिट करने के लिए एक तस्वीर अपलोड करते हैं। जो लोग अपने परिवार में पालतू जानवर का स्वागत करना चाहते हैं, वे Home To Home™ पर उपलब्ध पालतू जानवरों को ढूंढ सकते हैं। दोनों पक्षों के लिए, पालतू जानवर को री-होम करने की कोई फीस नहीं है।

ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज, जरूरत पड़ने पर सिटी के Home To Home™ प्रोग्राम का निरीक्षण करेगी। एनिमल सर्विसिज, री-होमिंग प्रक्रिया में सहायता के लिए, सलाह और सुझाव पेश कर सकती है। मालिकों से अनुरोध है कि जब उनका पालतू जानवर, अपने नए घर में सुरक्षित रूप से पहुंच जाए, तो वह ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज को सूचित करें।

हालांकि Home To Home™ के द्वारा, पालतू जानवरों को री-होमिंग करने से, कुछ पालतू जानवरों को शेल्टर में छोड़ने की जरूरत में कमी आएगी, लेकिन हो सकता है कि यह सभी री-होमिंग जरूरतों के लिए अनुकूल न हो। जानवरों को अभी भी, केस-दर-केस आधार पर, सीधे शेल्टर में छोड़ा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज को संपर्क करें।

Home To Home™ तक पहुंच के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानने और ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज तक पहुंच के लिए, Brampton.ca/animalservices पर जाएं।

Home To Home™ शेल्टर द्वारा तैयार किया गया प्रोग्राम है, जो उन लोगों के लिए सकारात्मक विकल्प प्रदान करने के लिए, अन्य शेल्टरों की मदद करेगा, जो अब अपने पालतू जानवर की देखभाल नहीं कर सकते। ऑनलाइन, Home To Home™ नेटवर्क home-home.org पर जाएं।

हवाले

“ब्रैम्पटन को, Home To Home™ पालतू जानवर री-होमिंग सर्विस पेश करने वाला, कैनडा का पहला शहर होने पर गर्व है। मुफ्त, उपयोग में आसान प्रोग्राम, हमारे समुदाय में पेट मालिकों को जानवरों के लिए प्यार करने वाले घर ढूँढने में और जो लोग पालतू जानवरों से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें सक्षम बनाता है।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज, अब Home To Home™ के द्वारा पालतू जानवरों को री-होमिंग करने के लिए, एक नवीन हल पेश करेगा। हमें आशा है कि हमारे शेल्टर में कम जानवर छोड़े जाएंगे और ब्रैम्पटन में अधिक पालतू जानवरों को जल्दी और बिना विघ्न के घर मिलेंगे।”

– हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“अच्छी-तरह संचालित शहर के तौर पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन हमेशा हमारे निवासियों – और उनके पालतू जानवरों को अधिक प्रभावी और जुड़े रहने के तरीके ढूँढती है। किसी भी जानवर को, Home To Home™ के द्वारा री-होम किया जा सकता है, प्रोग्राम पर क्लिक करें और ब्रैम्पटन के पालतू जानवरों को नए, बढ़िया घर ढूँढने में मदद करें।”

– रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज का स्टाफ, ब्रैम्पटन में प्यार करने वाले घर ढूँढने में पालतू जानवरों की मदद के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैनडा में Home To Home™ सर्विस को शामिल करने वाले पहले समुदाय के तौर पर, स्टाफ जरूरत होने पर प्रक्रिया के द्वारा पेट मालिकों की मदद और पेट मालिकों को सीधे एक-दूसरे से बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए उपलब्ध है।”

– डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca